


# Cloze Passage Worksheet

## स्वस्थ दिनचर्या



निर्देश: खाली स्थानों को सही शब्दों से भरें।

1. हमें रोज सुबह \_\_\_\_\_ (व्यायाम/टीवी) करना चाहिए।
2. दिन की शुरुआत \_\_\_\_\_ (पानी/चाय) पीकर करनी चाहिए।
3. समय पर \_\_\_\_\_ (सोना/खेलना) स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है।
4. खाने से पहले \_\_\_\_\_ (हाथ धोना/कपड़े पहनना) चाहिए।
5. हमें रोज \_\_\_\_\_ (सूरज की रोशनी/अंधेरे) में समय बिताना चाहिए।